



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

1 नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1965/पौष 10, 1887 (शक)  
2- NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1965/PAUSA 10, 1887 (SAKA)

---

में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

---

## MINISTRY OF COMMERCE

### RESOLUTION

#### TARIFFS

*New Delhi, the 31st December, 1965.*

Mar/65.—The Tariff Commission has submitted its Report on  
of protection to the Ball Bearings Industry and the grant  
er Roller Bearings Industry on the basis of an inquiry  
r Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act,  
commendations are as follows:—

ted to ball bearings and adapter ball bearings, not  
mm. bore diameter, covered by I.C.T. Item  
) and 72(37) should be continued for a further  
years ending 31st December, 1968 but the  
of duty should be raised to 125 per cent  
urther, ball bearings and adapter ball bearings  
1 mm. bore diameter and upto and including  
iameter and roller bearings upto and including

- 100 mm. bore diameter (excluding railway axle box bearings) should be brought within the scheme of protection and subjected to the same rate of duty, namely, 125 per cent *ad valorem*. The duty also should remain in force till 31st December, 1963. Aircraft bearings will also be outside the scheme of protection.
- (2) If the recommendations regarding protection are accepted by Government, the relevant items of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 should be amended.
  - (3) For the reasons mentioned by the Tariff Commission, the future of the small scale sector of the roller bearings industry is doubtful. Such units as have made good progress may be given necessary assistance in all possible ways but great caution has to be exercised in allowing any expansion of such units.
  - (4) Since the imported raw materials account for only 15 to 30 per cent of the cost of the finished products, and these will progressively be available in the country, it is desirable to encourage the fullest manufacture of roller bearings by providing foreign exchange for the import of raw materials to the required extent rather than import of finished products.
  - (5) Either the Directorate General of Technical Development or the Ministry of Steel and Mines should make an assessment of the demand for various sections of steel required for the roller bearings industry and co-ordinate the efforts of capable producers of rods, wires and tubes to ensure sufficient production to meet the indigenous demand by the end of the Fourth Five Year Plan.
  - (6) While issuing licences for raw materials for the roller bearings industry for sources other than the General Currency Area or the Dollar Area, Government should first satisfy themselves that producers will be able to secure suitable raw materials from these sources.
  - (7) Blanket licences or licences with monetary limits should, wherever possible, contain a schedule or schedules of the sizes permitted to be imported and the protective rate should apply uniformly no matter what the end use might be. To the extent possible sizes near the protected type should be allowed to be imported except by a consumer or a dealer, and a proper check on the quantities needed by him.
  - (8) Periodical meetings between the Ball and Roller Manufacturers' Association, the State Trading Corporation, the Directorate General of Technical Development and the Tariff Commission should be held to settle import policy which would ensure that the concurrent and prospective capacity is fully employed and the consumers' needs are regularly and adequately met.
  - (9) Early steps should be taken to establish research facilities in each undertaking and a central laboratory to ensure high standards of production.
  - (10) Government should either control the production of roller bearings or the manufacturers of roller bearings or both.
  - (11) Future imports of ball and roller bearings should be indicated by the Tariff Commission in the "Monthly Statistics of the Foreign Trade of India" in the lines indicated by the Tariff Commission.
  - (12) Encouragement needs to be given for the manufacture of specialised tool and die by the roller bearings industry.

8. बाल तथा रोलर बेयरिंग निर्माता संघ, राज्य व्यापार निगम और तकनीकी विकास के महानिदेशक के बीच होने वाली नियतकालिक बैठकों से आयात नीति निर्धारित करने में सहायता मिलनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि उद्योग को समक्षी तथा भावी क्षमता का पूरा उपयोग हो रहा है और उपभोक्ताओं की जरूरतें नियमित तथा पर्याप्त रूप से पूरी हो रही हैं।
9. प्रत्येक कारखाने में आधुनिक डिजाइन तैयार करने तथा गवेषणा की सुविधाएं प्रदान करने और साथ ही ऊंचे किस्म के मानक सुनिश्चित करने हेतु एक केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक कदम उठाये जाने चाहिए।
10. सरकार को चाहिए कि या तो वह रोलर बेयरिंगों के सभी निर्माताओं को बिक्री कीमतों का नियंत्रण करें, अन्यथा वह किसी भी निर्माता की कीमत का नियंत्रण न करें।
11. बाल तथा रोलर बेयरिंगों का भावी आयात टैरिफ आयोग द्वारा बताये गये तरीके के अनुसार "मन्थली स्टेटिस्टिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इण्डिया" में दिया जाना चाहिए।
12. रोलर बेयरिंग उद्योग द्वारा अपेक्षित विशिष्ट ओजारों, जिगों और फिक्सचरों का उत्पादन करने के लिये कारखानों की स्थापना की प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
13. सभी निर्माताओं द्वारा कारखाने-के-भीतर प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिए और डिजाइन बनाने वालों तथा गवेषणा करने वालों के संवर्ग बनाने चाहिए।

2. सरकार ने सिफारिश (1) और (2) पर सावधानी से विचार किया है और इस तथ्य को देखते हुये कि आयात से किसी प्रकार की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि देश में ही बनने वाले विशिष्ट बेयरिंगों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और इस बात को ध्यान में रखते हुये भी कि सीमा शुल्कों की दरें वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1965 के अधीन युक्तियुक्त बना ली गयी हैं, सरकार का विचार है कि बाल बेयरिंग उद्योग को 31 दिसम्बर, 1965 के पश्चात् टैरिफ संरक्षण दिये रहने की आवश्यकता नहीं है।

शुल्क की दरों को फिलहाल जारी रखने का सरकार का विचार है। सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक विधि-व्यवस्था यथासमय की जायेगी।

3. सरकार ने सिफारिश (3) और (12) नोट कर ली हैं और उनको यथासम्भव क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे।

4. बाल और रोलर बेयरिंग निर्माता संघ का ध्यान सिफारिश (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

5. बाल बेयरिंग तथा रोलर बेयरिंग उद्योग का ध्यान सिफारिश (9) और (13) की ओर दिलाया जाता है ।

—

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इसकी एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाये ।

पी० के० जे० मेनन,  
संयुक्त सचिव ।